



आरआरकेट कर्मचारी सहकारी साख संस्था (मर्यादित), इन्दौर

रजि. नं. AR/IDR/1172 dt. 04.05.1993

दिनांक : 13 अक्टूबर, 2020

— ≡ सूचना ≡ —

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आरआरकेट कर्मचारी सहकारी साख संस्था (मर्यादित), इन्दौर की 23वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 बुधवार को निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए किया जाएगा :-

1. 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट तथा वैधानिक लेखा-परीक्षित लेखा विवरण लाभों के विनियोजन को मंजूरी देना।
2. प्रबंध समिति के सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लाभो का विनियोज एवं बजट का अनुमोदन करना।
3. प्रबंध समिति की सिफारिशों के अनुसार उपनियमों के प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन करना।

वर्तमान		प्रस्तावित	
1.	सेवानिवृत्ति हितलाभ राशि : रु. 5001/- बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।	1.	सेवानिवृत्ति हितलाभ राशि : रु. 7001/- बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।
2.	मृत्यु राहत राशि रु. 32,000/- बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।	2.	मृत्यु राहत राशि रु. 35,000/- बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।
3.	आपातकालीन ऋण : वेतन पर्ची अनिवार्य नहीं थी। बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।	3.	आपातकालीन ऋण : वेतन पर्ची अनिवार्य रहेगी। बाकी नियम एवं शर्तें पूर्ववत जैसी रहेगी।



4. संस्था की वर्ष 2020-21 की लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा निम्नलिखित सनदी लेखापाल फर्मों में से किसी एक अथवा विभागीय संपरीक्षक से होना, इसका चयन करना,
 1. अतुल ओमप्रकाश एंड कं. विक्रम टावर्स, सपना संगीता रोड, इन्दौर
 2. हुसैन शब्बीर एंड कं, विक्रम टावर्स, सपना संगीता रोड, इन्दौर
 3. पटेल एंड गुप्ता, 543-44, विक्रम टावर्स, सपना संगीता रोड, इन्दौर
5. अन्य कोई विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।
सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे वर्चुअल GB में उपस्थित होकर GB को सुचारु रूप से विचार विमर्श में सहयोग करें।

- कोई भी सदस्य यदि संबंधित जानकारी चाहता है तो उन्हें आमसभा की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व लिखित रूप में संस्था कार्यालय में आवेदन देना चाहिए।
- 23वीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ संस्था कार्यालय में दिनांक 23 अक्टूबर 2020 से वितरण के लिए उपलब्ध रहेगी।
- सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्था कार्यालय में दिए गए अपने पते, हस्ताक्षर तथा उत्तराधिकारी को सत्यापित करें और पूर्ण रूप से भरा हुआ के.वाय.सी. फार्म जमा करें।

हस्ता/-
(देवीलाल गोदारा)
सचिव

प्रबंध समिति के लिए तथा उनकी ओर से



**RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY (LIMITED)
INDORE (M.P.)**

Regd. No. AR/IDR/1172 Dtd. 04.05.1993

Date : 13 October, 2020

—≡ NOTICE ≡—

Notice is hereby given that 23rd Annual General Body Meeting of RRCAT Employee's Co-operative Credit Society (Ltd.) Indore will be held on 28th October, 2020, Wednesday to transact the following business:-

1. To read and adopt annual report and statutory audited statement of accounts for the period 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020.
2. To approve the appropriation of profits and budget for the financial year 2020-21 as recommended by the managing committee.
3. To approve the proposed amendments to the bylaws recommended by the managing committee:-

Existing		Proposed	
1	Retirement Benefit Scheme Amount : Rs. 5001/- Other terms and conditions remain same.	1	Retirement Benefit Scheme Amount : Rs. 7001/- Other terms and conditions remain same.
2.	Death Relif amount : Rs. 32,000/- Other terms and conditions remain same.	2.	Death Relif amount : Rs. 35,000/- Other terms and conditions remain same.
3.	Eligibility of Emergency Loan : Pay slip was not mandatory. Other terms and conditions remain same.	3.	Eligibility of Emergency Loan : Pay slip is made mandatory. Other terms and conditions remain same.



3. To appoint auditors from any of the given three chartered accountants firms or departmental auditors for the financial year 2020–21
 - (i) Atul Omprakash & Co., Vikram Towers, Sapna Sangeeta Road, Indore
 - (ii) Hussain Shabbir & Co., Vikram Towers, Sapna Sangeeta Road, Indore
 - (iii) Patel & Gupta, 543-44, 4th floor, Vikram Towers, Sapna Sangeeta Road, Indore
4. Any other business that may be brought with the permission of the President.

All members are therefore requested to attend the virtual GB meeting and help in smooth deliberation.

- Any question or information required by a member at the time of the meeting should please be communicated in writing to the Secretary at least 3 days before the date of Annual General Body Meeting.
- 23rd Annual report copies are available in the Society Office for the distribution to the members from 23rd October 2020.
- Members are requested to verify their address, signature and nominee given at Society office and submit the duly filled KYC form.

Sd/-
(Devilal Godara)
Secretary
For and on behalf of
Managing Committee



तेईसवीं वार्षिक रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं संस्था की 23वीं वार्षिक आम सभा में प्रबंध समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ।

मुझे प्रसन्नता है कि मैं 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए सहकारी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट लाभ हानि के लेखे जोखे एवं तुलना पत्र सहित आपके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष के दौरान हमारी संस्था की प्रगति उत्साहवर्धक एवं प्रशंसनीय रही है। संस्था की प्रगति रिपोर्ट इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर दी गई है जिसमें आप स्पष्ट देख पाएंगे कि किस तरह संस्था ने वर्ष दर वर्ष प्रगति की है।

लाभ का विनियोजन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान संस्था को कुल रु. 7540499.00 का लाभ हुआ। पिछले वर्ष तक के शेष राशि रु. 33983489.00 को जोड़ कर अब तक रु. 41523988.00 का लाभ हुआ है। समिति निम्न रूप में विनियोजन की सिफारिश करती है।

संचित निधि राशि रु. 10225099.00 का 25% = रु. 2556275.00

शेयर पूँजी रु. 1320600.00 का 25% लाभांश = रु. 330150.00

सभाएँ

(क) वार्षिक आमसभा : संस्था की 22वीं वार्षिक आमसभा 20 सितम्बर 2019 को विश्वेश्वरय्या ऑडिटोरियम में आयोजन की गई। सभा में कुल 534 सदस्यों ने भाग लिया था जो कि पिछले 25 वर्षों में यह सब से अधिक सदस्यों की उपस्थिति वाली आमसभा रही।

(ख) प्रबंध समिति की बैठकें : वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति ने 52 साप्ताहिक बैठकें और 6 विशेष/अति आवश्यक बैठक की गई। समिति के सदस्यों ने बैठकों में भाग लेकर अपना सहयोग दिया।

लाभांश और अंशदान पर ब्याज

वर्ष के दौरान हुए लाभ और वर्तमान संभावनाओं को ध्यान में रखकर 25% अतिरिक्त लाभांश तथा जमा किये गए अंशदान पर 12% ब्याज देने की कार्यकारिणी समिति की सिफारिश करती है।



सक्रिय सदस्यता

वित्तीय वर्ष में 101 नए सदस्य बने तथा त्याग पत्र देने, सेवानिवृत्त होने एवं मृत्यु होने के कारण 42 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई। 31 मार्च 2020 को संस्था की वर्तमान सदस्यों की संख्या 1386 दर्ज की गई।

शेयर पूंजी

जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्था के कार्य कारिणी समिति के लगातार प्रयासों के कारण संस्था की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 15 लाख से रु. 50 लाख किया गया है तथा 31 मार्च 2020 तक प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 3442600/- दर्ज की गई है।

वैधानिक आरक्षित निधि :

31 मार्च 2019 को आरक्षित निधि में रु. 11331078/- की शेष राशि थी। वित्तीय वर्ष के लाभ का विनियोजन से रु. 2513500/- तथा प्रवेश शुल्क के रु. 2525/- जोड़कर 31 मार्च 2020 को इस निधि में उपलब्ध राशि रु. 1384713/-.

सदस्यों द्वारा जमा धनराशि

धन जमा करने की विभिन्न योजनाओं में सदस्यों ने असीम उत्साह दिखाया है। इसका विवरण निम्नलिखित है:-

1 अप्रैल, 2019 को संतुलन जमा राशि	रु. 228135278/-
वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	रु. 180409900/-
वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	रु. 139623791/-
31 मार्च 2020 की शेष राशि	रु. 268921387/-

ऋण :

ऋण लेने में सदस्यों ने उत्साह दिखाया है, उसका विवरण निम्नलिखित है -

1 अप्रैल, 2019 को संतुलन जमा राशि	रु. 266072181/-
वित्तीय वर्ष के दौरान वितरण की गई राशि	रु. 251353517/-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण वापसी राशि	रु. 198714855/-
31 मार्च 2020 की शेष राशि	रु. 318710843/-



मृत्यु राहत निधि

रिपोर्ट अवधि के दौरान संस्था की समिति द्वारा संस्था के 03 दिवंगत सदस्यों के विधिक नामित सदस्य को रु. 9 1000/- की राशि मृत्यु राहत निधि के रूप में प्रदान की गई। संस्था दिवंगत सदस्य के परिवारों को अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

सदस्य कल्याण निधि

इस निधि के तहत रिपोर्ट अवधि में निम्नलिखित गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

(क) सेवानिवृत्त हितलाभ योजना : जिन सदस्यों ने अपनी सदस्यता के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनकी अधिवर्षिता पर प्रत्येक को रु. 5001/- का नकद उपहार दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 31 सदस्यों को यह उपहार दिया गया है।

(ख) विद्यार्थी सम्मान समारोह : शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 91 विद्यार्थियों को कन्वेंशन सेंटर, होमी भाभा ऑडिटोरियम में 23 जून 2019 को विद्यार्थी सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।

माननीय श्री ठाकुरता जी निदेशक, इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटर ग्रुप, आरआरकेट और श्री जीतेन्द्र कुमार वी.वी., प्रिंसिपल, ए.ई.सी.एस. द्वारा उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ठाकुरता जी ने उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया और श्री जीतेन्द्र कुमार वी.वी., प्रिंसिपल, एईसीएस ने जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्धारित नियमों पर विद्यार्थियों को निर्देश दिए। सभी उपस्थित विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और नकद इनाम प्रदान करके सम्मानित किया गया।

उप-कानूनों में संशोधन का कार्यान्वयन

(क) वार्षिक आम सभा में अनुमोदन किये हुए निम्नलिखित संशोधनों को सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25 सितंबर 2019 से लागू किया गया था।

वह उप-कानूनी संशोधन इस प्रकार है –

1. साधारण ऋण पात्रता : ऋण की पात्रता रु. 30000/- प्रति वर्ष, अथवा अधिकतम सीमा रु. 300000/- जो भी कम हो अधिकतम किशतों को 80 से 100 कर दिया है।
2. विशेष ऋण पात्रता : ऋण की पात्रता रु. 80000/- प्रति वर्ष, अथवा अधिकतम सीमा रु. 800000/- अथवा मूल वेतन का 20 गुना जो भी कम हो और अधिकतम किशतों को 120 से 150 कर दिया है।



3. उपभोक्ता ऋण पात्रता : इस को स्थापना ऋण भी कह सकते हैं और नए बने सदस्य भी इस ऋण का लाभ उठा सकते हैं। ऋण की पात्रता अधिकतम सीमा रु. 600000/- और अधिकतम किश्तों को 100 से 120 कर दिया है।
4. मृत्यु राहत राशि : मृत्यु राहत राशि को रु. 30000/- से बढ़ा कर रु. 320000/- प्रति सदस्य किया गया है।

(ख) इस कोरोना, कोविड-19 महामारी के काल /समय में सदस्यों की हित को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारिणी समिति ने विशेष बैठक में निम्नलिखित उप-कानूनों में संशोधन करके रजिस्ट्रार की अनुमति से दिनांक 15 सितम्बर 2020 से लागू किया।

1. साधारण ऋण पात्रता : ऋण की पात्रता रु. 30000/- से बढ़ा कर रु. 50000/- प्रति वर्ष, अथवा अधिकतम सीमा रु. 300000/- जो भी कम हो कर दिया है।
2. विशेष ऋण पात्रता : ऋण की सीमा रु. 800000/- से बढ़ा कर रु. 1000000/- कर दिया है। ऋण की पात्रता 6 साल की सदस्यता पूर्ण होने तक रु. 100000/- प्रति वर्ष, 6 साल की सदस्यता पूर्ण होने के बाद मूल वेतन का 26 गुना अथवा रु. 1000000/- जो भी कम हो कर दिया है।
3. उपभोक्ता ऋण पात्रता : उपभोक्ता ऋण पर ब्याज की दर 11.5% से 11% कर दिया है। बाकी नियम एवं शर्तें जैसी रखा है।
4. सावधि जमा पर ब्याज की दर 6.5% (1 वर्ष से 5 वर्ष) और 5.5% परिपक्वता के पूर्व में कम किया गया है।

प्रबंध समिति

वर्ष के दौरान प्रबंध समिति के सभी सदस्यों ने संस्था की दैनिक गतिविधियों में उत्साहजनक रूप से भाग लिया। समिति के सभी सदस्यों द्वारा सक्रिय सहभागिता एवं उत्साह संस्था की प्रगति के सूचक रही और वित्तीय वर्ष आवर्त को रु. 41 करोड़ 52 लाख पहुँचाया।

आभार

प्रबंध समिति की ओर से तथा मेरे स्वयं की ओर से निदेशक आरआरकेट, प्रशासन, लेखा, सिविल, विद्युत अनुभाग, अतिथि गृह और सुरक्षा अनुभाग को हमारे प्रयासों में उनके बहुमूल्य सहयोग हेतु आभार व्यक्त करती हूँ। मैं संस्था के सभी स्टाफ सदस्यों को उनके सहयोग, कार्य के प्रति समर्पण एवं उनके सराहनीय प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।



अंत में, मैं यह कहना चाहूंगी कि संस्था के सदस्यों के सक्रिय सहयोग एवं उनके विश्वास से ही हम संस्था को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो सके एवं अपने कर्तव्यों का पालन कर पाये। मैं आशा करती हूँ कि सदस्य निरंतर संस्था को और अधिक ऊँचाईयों तक ले जाने हेतु अपना सक्रिय सहयोग एवं सहायता प्रदान करते रहेंगे।

मैं सभी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि आज की इस कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद!

हस्ता/-
(श्रीमती श्रायनर पेनुमाला)
अध्यक्ष
प्रबंध समिति की ओर से





23rd ANNUAL REPORT

Dear Members,

It is my privilege to welcome all of you for the 23rd Annual General Body Meeting of our Society on behalf of the Managing Committee.

I have pleasure to present the Annual Working Reports along with profit and loss account and balance sheet for the co-operative year ended on 31st March 2020 and seeks your approval. I am glad to note that the progress of our Society during the year under report was tremendous and appreciable. The progress at a glance printed at last page of the report will give you a clear picture about how the Society has been progressing year after year.

Appropriation of Profit:

During the year ended on 31st March, 2020, the society has earned a net profit of Rs. 7540499/- adding last year's balance of Rs. 33983489/-, the society has earned profit of Rs. 41523988/- so far. The committee recommends the appropriation as under:

Reserve fund@25% of Rs.10053999/- = Rs. 2513500/-

Dividend@25% on share capital 1320600/- = 330150/-

Meetings:

- (a) Annual General Body Meeting: 22nd Annual General Body Meeting of the society was held on 20th September 2019 at Vishvesvarayya Auditorium (Main Hall), Central Complex RRCAT. Total 534 members had attended the meeting, which is the highest attendance in last 25 years.
- (b) Managing Committee Meetings: During the financial year 52 weekly meetings and 6 special meetings were held. All the members extended their co-operation by participating in the meetings.

Dividend and Interest on Subscription:

Taking into account the profit for the year, we recommend a dividend of 25% on their paid up shares and 12% interest on subscription for this year.



Active membership:

During the year under report 101 new members were enrolled, while 42 ceased to be members on account of resignation, retirement and death. The active membership of the Society as on 31st March 2020 was 1386.

Share Capital:

As you all know that last year due to the present Executive Committee member's efforts, the authorized share capital of the Society is increased to Rs. 50 Lakh from Rs. 15 Lakh. Paid up capital as on 31st March, 2020 is Rs. 3442600/-

Statutory Reserve Fund:

The balance in the Statutory Reserve Fund as on 31st March, 2018 was Rs. 11331078/- . After adding amount of during the year under report appropriation of profit Rs. 2513500/- , plus Rs. 2525/- as admission fees, the balance as on 31st March, 2020 is Rs. 13847103/-

Members Deposits:

As in the past years there was appreciable response from our members to our deposit schemes. Particulars as follows:

Opening balance as on 1 st April, 2019	Rs. 228135278/-
Received During the year	Rs. 180409900/-
Paid During the year	Rs. 139623791/-
Closing Balance as on 31 st March, 2020	Rs. 268921387/-

Loans:

As in the past there was appreciable support to fulfill the requirement of the members through various types of Loans. Particulars s follows:

Opening Balance as on 1 st April, 2019	Rs. 266072181/-
Loan disbursement during the year	Rs. 251353517/-
Loan recovered during the year	Rs. 198714855/-
Closing balance as on 31 st March, 2020	Rs. 318710843/-



Death relief:

During the period under report, we have granted death relief to the legal nominee of 03 deceased member of our society. We convey out heartfelt condolences to the family of the deceased members.

Member Welfare Fund:

The following activities have been successfully implemented in the reporting year under this fund:

Retirement benefit

Students felicitation program:

Total 91 students who have scored more than 70% in 10th and 12th the examinations, were felicitated in the student Felicitation program on 23rd June 2019 at Convention Centre, Homi Bhabha auditorium with certificates and cash prize.

The program was inaugurated by the honorable guest Shri A.C. Thakurta, Group Director Electron Accelerator Group and Shri Jithendra Kumar V.V. Principal, AECS. Shri Thakurta gave inspirational speech to the students to achieve goals in the life. Shri Jithendra Kumar V.V Principal instructed the students on the rules laid down for the success in life. All present students were felicitated by chief guests with the certificates and cash prize. Refreshments followed the function.

Implementation of By-Laws amendment:

- (a) After the approval of amendment by Annual General meeting, in view of the interest of the members, the following amendments were implemented w.e.f 25th September 2019.
 1. Ordinary Loan Eligibility: Rs. 30,000/- per completed years of membership or Rs 3,00,000/- whichever is less and maximum no. of installments increased to 100 from 80.
 2. Special Loan Eligibility: Rs. 80,000/- per completed years of membership or 20 times of basic pay or Rs 8,00,000/- whichever is less and maximum no. of installments increased from 120 to 150.
 3. Consumer Loan Eligibility: This may also be called as establishment loan and new member can avail this loan with the first pay slip. Maximum limit of the loan



is increased from Rs. 5,00,000/- to Rs. 6,00,000/- and maximum no. of installments increased to 120 from 100.

4. Death relief Fund: Increased the limit of financial help to family of deceased member from Rs.30,000/- to RS. 32,000/-.
- (b) In view of the interest of the members at the time of this corona, COVID-19 pandemic, the managing committee amended the following amendments were implemented w.e.f 15th September 2020.
 1. Ordinary Loan Eligibility: Eligibility of the loan is increased from Rs. 30,000/- to Rs. 50,000/- per completed years of membership or Rs 3,00,000/- whichever is less. All other terms and conditions kept same.
 2. Special Loan Eligibility: Maximum limit of special loan in increased to Rs. 10,00,000/- . Eligibility of the (a) up to 6 completed years of membership: Rs. 1,00,000/- per completed years of membership (b) After 6 completed years of membership 26 times of basic pay or Rs 10,00,000/- whichever is less. All other terms and conditions kept same.
 3. Consumer Loan Eligibility: Rate of interest on consumer loan is reduced to 11.0%. All other terms and conditions kept same.
 4. Rate of interest on Fixed Deposit is reduced to 6.5% (1year to 5 years) and 5.5% in case of prematurity.

Managing Committee

During the year all managing committee members have taken keen interest in Society's day to day activities vigorously.

During the financial year due to the with the enthusiastic participation of the executive committee members society has achieved the financial turnover of 41 crore 52 lakh.




Gratitude

On behalf of managing committee and on my own behalf I express sincere thanks to Director RRCAT, Administration, Accounts, Civil & Electrical Section, Guest House and Security for their valuable co-operation. I am also thankful to the staff members of the Society for their co-operation, dedication to the work and sincere efforts.

Finally, I shall be failing in my duties if I do not keep on record the active co-operation and faith bestowed by the members for the smooth functioning of the Society. I hope that the members of the Society will continue to co-operate and help to lead the Society to achieve better goals.

I request the members to participate actively in today's proceedings and help us to conduct the meeting in smooth and pleasant manner.

Thanking you,



Sd/-
(Smt. Shryner Penumala)
President
On behalf of Managing Committee



वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर

माननीय सदस्यों,

संस्था की अनवरत प्रगति में सक्रिय भागीदार रहने के लिए आप सब का धन्यवाद। कोरोना काल ने संस्था के हाल ही लिए गए ऑनलाइन सुविधा के निर्णय को और सुदृढ़ किया है। हमें ये जानकारी बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि संस्था ने ऑनलाइन सुविधा में निम्नलिखित प्रावधान करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की है—

1. सदस्य का लॉग इन आय.डी. एवं पासवर्ड
2. सदस्यों की प्रोफाइल बनाना
3. 31 मार्च 2020 तक का अग्रिम एवं जमा का बैलेंस
4. संस्था का डोमेन नवीनीकरण
5. संस्था का टेली-मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन (एस.एम.एस. फ़ैसिलिटी)

संस्था ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर खरीदे हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से सदस्य किसी भी समय, कहीं से भी अपना अकाउंट देख सकेगा। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर संस्था कार्यकारिणी सदस्यों एवं स्टाफ के लिए संस्था कार्यालय में उपयोग में लाया जायेगा।

पुनः एक बार आप सबका संस्था की प्रगति के लिए सभी संस्था सदस्यों की भागीदारी के लिए धन्यवाद!

हस्ता/-
(विपिन देव)
वेबमास्टर



Website and Software

Honorable members,

Thanks to all of you for actively participating in the continual progress of the society. CORONA era has made us more determined towards making our society online.

We are pleased to inform you that we have incorporated following features in our website towards ensuring transparency -

1. Creation of login id and password
2. Creation of member profile
3. Updation of balances of deposits and advances till Mar. 2020.
4. Renewal of website domain name.
5. Registration for telemarketing to initiate bulk SMS facility.

We have purchased two types of software viz. online and offline. Online software will facilitate the website that will be used by members to access their accounts anytime, anywhere. Offline software will be used by society executives and staff from the society office.

Once again thanks for your co-operation towards the advancement of society.

Sd/-
(Vipin Dev)
Webmaster



AUDIT REPORT

We have completed the Internal audit of the accounts for the financial year 2019-20 and enclose the Balance Sheet of **RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED, INDORE** as at 31st March 2020 and The Income & Expenditure Account for the year ended on that date: -

1. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit.
2. In our Opinion, proper books of accounts as required by the Madhya Pradesh State Co-Operative Society Act and Rules there under and Bye Laws of Society have been kept by the society so far as it appears from our examination of the books.
3. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account examined by us are in agreement with the books of Accounts.
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, give all the information required by the Madhya Pradesh State Co-Operative Society Act and Rules there under in the manner so required and give a true and fair view Subject to ANNEXURE NIL
 - A) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the assessee as at 31st March, 2020 and;
 - B) In the case of Income & Expenditure Account of the Income of the assessee for the year ended on that date.

For **ATUL OMPRAKASH & CO.**
Chartered Accountants

Sd/-
(ATUL KUMAR KHANDELWAL)
PROPRIETOR
M. No. 400977

PLACE: INDORE
Dated: 30/09/2020

**RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD., INDORE**
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2020

PARTICULARS	SCH.No.	31.03.2020	31.03.2019
I SOURCES OF FUNDS			
1 SHARE HOLDERS FUND :			
A) SHARE CAPITAL	1	3442600.00	1189000.00
B) RESERVE & SURPLUS	2	16639941.00	12345166.00
2 LOANS FUND/DEPOSITS			
A) SUBSCRIPTION FROM MEMBERS	3	63461558.00	53166726.00
B) SUNDRY DEPOSIT FROM MEMBERS	4	190372522.00	174968552.00
3 INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT		41523988.00	33983489.00
TOTAL		315440609.00	275652933.00
II APPLICATION OF FUNDS			
4 FIXED ASSETS	5		
GROSS BLOCK		393778.00	342295.00
LESS: DEPRECIATION		102582.00	68567.00
NET BLOCK		291196.00	273728.00
5 INVESTMENTS	6		
FIXED DEPOSIT WITH BANK		0.00	12050752.00
TOTAL(RS.)		0.00	12050752.00
6 CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES			
A) CASH AND BANK BALANCES	7	2143776.00	2241204.00
B) LOANS AND ADVANCES	8	318755633.00	266156335.00
TOTAL(RS.)		320899409.00	268397539.00
LESS : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
A) CURRENT LIABILITIES	9	0.00	0.00
B) PROVISIONS	10	5749996.00	5069086.00
NET CURRENT ASSETS		315149413.00	263328453.00
TOTAL		315440609.00	275652933.00

Notes to Accounts
Schedule Referred to above Forming
Integral Part of Balance Sheet

Place : INDORE
Date : 30.09.2020

As per report of even date attached
For Atul Omprakash & Company
Chartered Accountants

(Atul Kumar Khandelwal)
Proprietor

**RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD., INDORE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020**

PARTICULARS	SCH.No.	Amount 31.03.2020	Amount 31.03.2019
1. INCOME			
INTEREST INCOME	11	32366123.00	26318591.00
OTHER INCOME	12	12601.00	3846.00
EXCESS PROVISIONS WRITTEN BACK	13	0.00	0.00
TOTAL		32378724.00	26322437.00
2. EXPENDITURES			
INTEREST EXPENSES	14	18381110.00	17222042.00
ESTABLISHMENT EXPENSES	15	809033.00	766354.00
CO-OPERATIVE AUDITING FEES		0.00	0.00
DEPRECIATION		102582.00	68567.00
PROVISIONS	16	3032000.00	1860000.00
TOTAL		22324725.00	19916963.00
INCOME & EXPENDITURE BEFORE TAXATION		10053999.00	6405474.00
PROVISION FOR RESERVE FUND		2513500.00	1601369.00
INCOME & EXPENDITURE AFTER APPROPRIATION		7540499.00	4804105.00
ADD: BALANCE B/F FROM PREVIOUS YEAR		33983489.00	29179384.00
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET		41523988.00	33983489.00

Notes to Accounts
Schedule Referred to above Forming
Integral Part of Balance Sheet

Place : INDORE
Date : 30.09.2020

As per report of even date attached
For Atul Omprakash & Company
Chartered Accountants

(Atul Kumar Khandelwal)
Proprietor



RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD., INDORE
SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET
AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

PARTICULARS		SCH.No.	On 31.03.2020	On 31.03.2019
SCHEDULE: 1				
SHARE CAPITAL				
AUTHORISED				
50000 EQUITY SHARE OF Rs 100/- EACH			5000000.00	1500000.00
ISSUED,SUBSCRIBED AND PAID UP				
34426 EQUITY SHARE OF Rs.100/- EACH			3442600.00	1189000.00
AS PER LAST BALANCE SHEET	1189000			
ADD: ISSUE DURING THE YEAR	2295600			
LESS: PAYMENT DURING THE YEAR	42000			
TOTAL(RS.)			3442600.00	1189000.00
SCHEDULE 2				
RESERVE & SURPLUS				
A) RESERVE FUND				
OPENING BALANCE	11331078.00		13847103.00	11331078.00
ADD: TRANSFER FROM P& L A/C	2513500.00			
ADD:ADMISSION FEE RECEIVED	2525.00			
DURING 19-20				
B) DIVIDEND EQUILISATION FUND				
OPENING BALANCE	314088.00		1992838.00	314088.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	2000000.00			
LESS:PAYMENT DURING THE YEAR 19-20	321250.00			
C) DEATH RELIEF FUND				
OPENING BALANCE	555000.00		555000.00	555000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	92000.00			
LESS:PAYMENT DURING THE YEAR 19-20	92000.00			
D) ELECTION EXPENDITURE FUND				
OPENING BALANCE	95000.00		195000.00	95000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	100000.00			
LESS:PAYMENT DURING THE YEAR 19-20	0.00			



PARTICULARS		SCH.No.	On 31.03.2020	On 31.03.2019
E) OFFICE DEVELOPMENT FUND				
OPENING BALANCE	50000.00		50000.00	50000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	0.00			
LESS: PAYMENT DURING THE YEAR 19-20	0.00			
TOTAL (RS.)			16639941.00	12345166.00
SCHEDULE 3				
SUBSCRIPTION FROM MEMBERS				
OPENING BALANCE	53166726.00		63461558.00	53166726.00
ADD: RECEIVED DURING 19-20	12384703.00			
LESS: PAYMENT DURING 19-20	2089871.00			
TOTAL (RS.)			63461558.00	53166726.00
SCHEDULE 4				
SUNDRY DEPOSIT FROM MEMBERS				
FIXED DEPOSIT			168209955.00	147368590.00
RECURRING DEPOSIT			12120082.00	12512655.00
PRAGATI SCHEME			10042485.00	15087307.00
TOTAL (RS.)			190372522.00	174968552.00
SCHEDULE 5				
FIXED ASSETS				
A) GROSS BLOCK			393778.00	342295.00
B) LESS: DEPRECIATION			102582.00	68567.00
C) NET BLOCK			291196.00	273728.00
SCHEDULE 6				
INVESTMENTS				
FIXED DEPOSIT WITH BANK	12050752		0.00	12050752.00
ADD: ADDITION DURING 19-20	0			
LESS: REALISED DURING 19-20	12050752			
ADD: ACCRUED INTEREST ON FD	0			
TOTAL (RS.)			0.00	12050752.00



PARTICULARS		SCH.No.	On 31.03.2020	On 31.03.2019
SCHEDULE 7				
CASH & BANK BALANCES				
CASH IN HAND			47783.00	50451.00
INDORE PREMIER CO.-OP. BANK (SAVING A/C)			6053.00	73032.00
STATE BANK OF INDIA			2089940.00	2117721.00
TOTAL(RS.)			2143776.00	2241204.00
SCHEDULE 8				
LOANS AND ADVANCES				
ORDINARY LOANS			77859810.00	62067109.00
SPECIAL LOANS			146995956.00	
EMERGENCY LOANS			7113499.00	5379199.00
CONSUMER LOANS			86741578.00	74458453.00
TDS 2019-20			44790.00	84154.00
TOTAL(RS.)			318755633.00	266156335.00
SCHEDULE 9				
CURRENT LIABILITIES				
LOAN AGAINST FD FROM IPC BANK			0	0
LESS: PAYMENT MADE DURING 19-20			0	0
TOTAL(RS.)			0	0
SCHEDULE 10				
PROVISIONS				
FOR INTERNAL AUDIT FEES	61000		81000.00	61000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	20000			
LESS: PAYMENT	0			
FOR DEPRECIATION	0		0.00	0.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	102582			
LESS: DEPRECIATION CHARGED	102582			
FOR SOFTWARE DEVELOPMENT	500000		459250.00	500000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	0			
LESS: PAYMENT	40750			
FOR OFFICE FURNITURE & MACHINERY	600000		900000.00	600000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	300000			
LESS: PAYMENT	0			
FOR STATUTORY AUDIT FEES	264380		266040.00	264380.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	120000			
LESS: PAYMENT	57100			



PARTICULARS		SCH.No.	On 31.03.2020	On 31.03.2019
FOR CO-OPERATIVE TRAINING	10000		10000.00	10000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	0			
LESS: PAYMENT	0			
FOR INTEREST ON PRAGATI SCHEME	3033706		3433706.00	3033706.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	400000			
LESS: PAYMENT	0			
FOR WELFARE ACTIVITIES	600000		600000.00	600000.00
ADD: PROVISION MADE DURING 19-20	0			
LESS: PAYMENT	0			
TOTAL (RS.)			5749996.00	5069086.00
SCHEDULE 11				
INTEREST INCOME				
INTEREST INCOME FROM ORDINARY LOAN, SPECIAL LOAN, EMERGENCY LOAN, CONSUMER LOAN			31812685.00	25703998.00
INTEREST INCOME FROM FIXED DEPOSIT			408022.00	449668.00
INTEREST INCOME FROM SAVING BANK			145416.00	164925.00
TOTAL(RS.)			32366123.00	26318591.00
SCHEDULE 12				
OTHER INCOME				
SALE OF FORMS			2736.00	2025.00
DUPLICATE PASS BOOK			330.00	170.00
ELECTION ACCOUNT			0.00	0.00
INTEREST ON INCOME TAX REFUND			5916.00	0.00
MISC. RECEIPT			0.00	0.00
DIVIDEND			3619.00	1651.00
TOTAL(RS.)			12601.00	3846.00
SCHEDULE 13				
EXCESS PROVISION WRITTEN BACK				
AUDIT FEES			0.00	0.00
DIVIDEND EQUILISATION FUND			0.00	0.00
INTERNAL AUDIT			0.00	0.00
ELECTION EXPENDITURE FUND			0.00	0.00
TOTAL(RS.)			0.00	0.00



PARTICULARS	SCH.No.	On 31.03.2020	On 31.03.2019
SCHEDULE 14			
INTEREST PAYMENT			
INTEREST PAYMENT ON FIXED DEPOSIT RECURRING DEPOSIT AND SUBSCRIPTION		18381110.00	17222042.00
TOTAL(RS.)		18381110.00	17222042.00
SCHEDULE 15			
ESTABLISHMENT EXPENSES			
STATIONARY & PRINTING		54086.00	20785.00
OFFICE EXP.		119020.00	100522.00
STUDENT FELICITATION EXPENSES		76640.00	28000.00
SALARIES & ALLOWANCES		402929.00	466225.00
RETIREMENT BENEFIT SCHEME		155031.00	150030.00
BANK CHARGES		1327.00	792.00
TOTAL(RS.)		809033.00	766354.00
SCHEDULE 16			
PROVISIONS			
INTERNAL AUDIT FEES		20000.00	20000.00
AUDIT FEES (STATUTORY)		120000.00	100000.00
ELECTION EXPENDITURE		100000.00	50000.00
PROPOSED DIVIDEND		2000000.00	340000.00
DEATH RELIEF FUND		92000.00	200000.00
DEPRECIATION		0.00	0.00
CO-OPERATIVE TRAINING		0.00	0.00
INTEREST ON PRAGATI SCHEME		400000.00	400000.00
SOFTWARE DEVELOPMENT		0.00	300000.00
OFFICE FURNITURE & MACHINERY		300000.00	300000.00
WELFARE ACTIVITIES		0.00	150000.00
TOTAL(RS.)		3032000.00	1860000.00

Notes to Accounts
Schedule Referred to above Forming
Integral Part of Balance Sheet

Place : INDORE
Date : 30.09.2020

As per report of even date attached
For Atul Omprakash & Company
Chartered Accountants

(Atul Kumar Khandelwal)
Proprietor

बैंकर्स / Bankers

भारतीय स्टेट बैंक
केट शाखा, पोस्ट-केट, इन्दौर-452103
STATE BANK OF INDIA
CAT Branch, P.O. CAT Indore-452 013

इन्दौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
अन्नपूर्णा शाखा, इन्दौर-452009
INDORE PREMIER CO-OPERATIVE BANK LTD.
Annapurna Branch, Indore-452 009
728A, Sudama Nagar, Near Genesh Mandir, Indore